



वन उत्पादकता संस्थान, रांची

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार



आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत

"बांस पौधशाला एवं प्रबंधन"

विषय पर संगोष्ठी

दिनांक 12.11.2021

भारत सरकार के शासनादेश एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के आदेश के आलोक में संस्थान द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान के विस्तार प्रभाग के श्री एस. एन. वैद्य के नेतृत्व में गठित एक दल द्वारा वन उत्पादकता संस्थान, रांची द्वारा दिनांक 12.11.2021 को उलगड़ा, लातेहार, झारखंड में "बांस पौधशाला एवं प्रबंधन" विषय पर उलगड़ा एवं आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय, बुलहू, चंदवा, लातेहार के अध्यापक श्री बालेश्वर भगत भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत श्री एस.एन.वैद्य, मुख्य तकनीकी अधिकारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए दी। श्री वैद्य ने बांस के प्रबंधन के विभिन्न तकनीकी को बताते हुए कहा कि इसके नर्सरी बना कर भी जीविकोपार्जन की समस्या का हल किया जा सकता है। उन्होंने बांस पौधशाला एवं इसके प्रबंधन के तकनीक को विस्तार से बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को पौधशाला तकनीक, नोड कटिंग, उत्तक संवर्धन आदि तरीकों को बताते हुए दुश्मन कीट के प्रभाव को कम करने का उपाय बताया तथा सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के विषय में जनकारी दी।

मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री निसार आलम ने बांस की उपयोगिता बताते हुए इसके बाजार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बांस उत्पादन में चीन से हम काफी पीछे हैं जिसकी भरपाई करनी है। बांस आज सिर्फ भवन निर्माण ही नहीं अपितु दवाई, कपड़ा, भोज्य पदार्थ, साबुन, कोयला आदि के रूप में अपनी उपयोगिता शिद्ध कर चुकी है। बांस से निर्मित घर तापक्रम सहन करने की क्षमता रखता है। उन्होंने बताया कि बांस मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक उपयोगी है।

श्री सूरज कुमार, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ने बांस पौधशाला के तकनीक से प्रतिभागियों को अवगत कराया तथा बांस प्रवर्धन एवं प्रबंधन के तकनीक को बताते हुए विभिन्न प्रजाति के बांस का परिचय देते हुए उसके पहचान से भी किसानों को अवगत कराया। उन्होंने बांस विदोहन, भण्डारण आदि तकनीक से किसानों को अवगत कराया।

इस अवसर पर विभिन्न प्रतिभागियों के प्रश्नों का श्री एस.एन. वैद्य, श्री निसार आलम एवं श्री सूरज कुमार ने सफलतापूर्वक जवाब दिया।

धन्यवाद ज्ञापन देते करते हुए श्री एस. एन. वैद्य ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विस्तार प्रभाग के श्री एस.एन. वैद्य, श्री सूरज कुमार एवं सेवा एवं सुविधा प्रभाग के श्री निसार आलम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।





आयोजित कार्यक्रम की झलकियां





आयोजित कार्यक्रम की झलकियां



आयोजित कार्यक्रम की झलकियां



आयोजित कार्यक्रम की झलकियां